

HOMEWORK FOR SUMMER VACATION

ST. COLUMBAS SCHOOL
BILASI TOWN, DEOGHAR

STD. ONE

ELGA

ACTIVITY BASED ASSIGNMENT

- WRITE 15 PAGES LEFT HAND WRITING IN H.W COPY.
- WRITE ALPHABET LETTERS, VOWELS AND CONSONANT IN CHART PAPER.
- DRAW A FAMILY TREE OF YOURS, PASTE PICTURE(S) AND WRITE YOUR RELATION IN CHART PAPER.

EXERCISE SOLUTION

UNIT-1

- LEARN AND WRITE FOUR WORDS EACH FROM LETTER A TO Z.
- READ SR-5, MY FAMILY AND I; SR-15, SO MANY HOUSES; SR- 19, THE HAPPY MOUSE.
- SR - 22 (LEARN ALL WHOLE WORDS WITH MEANING.)

UNIT- 2

- LEARN SR-1, 2 AND 3 (BEGINNING SOUNDS).
- READ SR-4, PICNIC TIME; SR-11 MY BEST FRIEND.

NOTE: - WRITE ALL THE EXERCISES SOLUTION IN ENGLISH H.W COPY

हिंदी

- बाएं हाथ से 15 पन्ना सुलेख लिखे।
- मात्राओं का चक्र बनाएं (चार्ट पेपर पर).

- स्वर वर्ण , व्यंजन वर्ण , संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन चार्ट पेपर पर सजा के लिखें ।

EXERCISE SOLUTION

इकाई - 1

- दो , तीन और चार अक्षर वाले शब्द 10-10 लिखें ।
- SB- 27 अपना चित्र कॉपी में चिपक कर अपने बारे में पांच पंक्तियां लिखें।
- SB -30 का कविता याद करें।
- SB - 32 आवाजों के नाम याद करें ।
- SB - 09 स्वर गीत याद करें ।
- SB - 11 ,12 व्यंजन गीत याद करें ।

इकाई - 2

- आ की मात्रा से 20 शब्द लिखें ।
- इ की मात्रा से 20 शब्द लिखें।
- ई की मात्रा से 20 शब्द लिखें।
- SB - 7 सावन आया कविता याद करें।
- SB - 19 सबका साथ कविता याद करें।
- उ की मात्रा से 20 शब्द लिखें।

नोट :- Exercise Solution की सारी चीज हिंदी H.W कॉपी में बनाएं।

MATHS

1. LEARN MULTIPLICATION TABLES FROM 2 TO 30.
2. DRAW A SYMBOL OF ADDITION AND WRITE THEIR NINE NAMES ON CHART PAPER.
3. UNIT - 1
 - WRITE NUMBERS NAME (1 TO 50)
 - SB 5, PAGE - 14
 - SB 2, PAGE - 29
 - SB 21, PAGE - 30
 - SB 23, PAGE - 32
 - LEARN AND WRITE ORDINAL NUMBER (1 TO 10).

- SB - 27, EX :- 8.1 , 8.2 AT PAGE - 36.

UNIT - 2

- SB 5 AND 6, EX:- 3.1 , 3.2 PAGE - 46 AND 47
- SB 9 ,EX 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 PAGE - 50
- SB 10, EX - 5.1 PAGE - 51

NOTE: - DO ALL THE ABOVE QUESTIONS IN MATHS H.W COPY.

EVS

1. DRAW FIVE SENSE ORGANS, WRITE THEIR NAMES AND FUNCTION ON CHART PAPER.
2. DRAW FOOD GROUPS CHART AND ALL THE NAMES OF FOOD GROUPS.

EXERCISE SOLUTION

- READ UNIT - 1 OUR BODY
- READ UNIT - 2 FOOD AND FOOD GROUPS
- LEARN AND WRITE 20 PARTS OF BODY NAME
- WRITE 10 INNER AND OUTER BODY PARTS.
- WRITE FIVE GOOD TOUCH AND BAD TOUCH.
- WRITE TEN LINES ON MY SELF
- LEARN ALL EXERCISE OF UNIT - 1.

NOTE: - DO ALL THE ABOVE QUESTIONS IN EVS H.W COPY.

CCS

1. EXERCISE SOLUTION

DO THE QUESTIONS GIVEN BELOW IN YOUR CCS HOMEWORK COPY.

- Q NO. 2 OF PAGE 11

- ACTIVITY 1.1 PF PAGE - 12 AND ACTIVITY 1.2 OF PAGE - 13.
- PRACTICE QUESTIONS 1,2,3 OF UNIT - 1

2. ACTIVITY

- TOPIC:- TANGRAM PUZZLES
- PROCESS:- PURCHASE A CHART PAPER AND DIVIDE IT INTO TWO PARTS , THEN CUT SHAPES FROM ONE PART AS INSTRUCTED ON PAGE - 18 , AND THEN PASTE THEM ONTO THE OTHER PART OF THE CHART PAPER.
- NOTE:- DON'T FORGET TO WRITE DOWN THE INSTRUCTIONS GIVEN ON PAGE - 18 ON THE CHART PAPER ALONG WITH YOUR NAME AND CLASS.

-XXX-